

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक-02.06.2022

लूटपाट की घटना कारित करने वाले गिरोह के 04 शातिर सदस्य थाना बीबीनगर पुलिस द्वारा गिरफ्तार, कब्जे से लूटे गये 3600/-रुपये नकद व घटना में प्रयुक्त 01 बाइक, अवैध असलहा मय कारतूस बरामद।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बुलन्दशहर श्री श्लोक कुमार के निर्देशानुसार अपर पुलिस अधीक्षक नगर श्री सुरेन्द्रनाथ तिवारी के कुशल निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी स्याना श्रीमती वन्दना शर्मा के निकट पर्यवेक्षण में थानाप्रभारी बीबीनगर श्री जितेन्द्र कुमार मय पुलिस टीम द्वारा दिनांक 01.06.2022 को चैकिंग के दौराने मुखबिर की सूचना पर लूट की घटना को अंजाम देने वाले 04 अभियुक्तों को लूटी गयी नकदी व घटना में प्रयुक्त बाइक, अवैध असलहा सहित गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम

1. कपिल पुत्र मोमराज निवासी नगला उग्रसैन थाना बीबीनगर जनपद बुलन्दशहर
2. दीपक पुत्र यादराम निवासी ग्राम लुधपुरा थाना बीबीनगर जनपद बुलन्दशहर
3. सुनील उर्फ कालिया पुत्र राजेन्द्र सिंह निवासी ग्राम लुधपुरा थाना बीबीनगर जनपद बुलन्दशहर
4. गौरव पुत्र सतीश निवासी ग्राम लुधपुरा थाना बीबीनगर जनपद बुलन्दशहर

बरामदगी

- 1- लूटे गये 3600 रूपये नकद
- 2- 02 तमंचा 315 बोर मय 4 जिन्दा कारतूस
- 3- घटना में प्रयुक्त एक मोटर साईकिल स्पलैँडर प्लस नं0- UP-13BM-0805
- 4- एक चाकू नाजायज

गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा दिनांक 31-05-2022 की रात्रि में थाना बीबीनगर क्षेत्रान्तर्गत बरकातपुर बम्बे के पास ग्राम भैंसापुर निवासी सुन्दर पुत्र वीरू की बाइक को रोककर तमंचे से डरा धमकाकर 5400 रुपये लूटने की घटना कारित की गयी थी। जिसके सम्बन्ध में थाना बीबीनगर पर मु0अ0स0 101/22 धारा 392/506/411 भादवि पंजीकृत हैं। अभियुक्तों से लूटी गयी धनराशि में से 3600 रुपये बरामद हुए हैं तथा घटना में प्रयुक्त बाइक व अवैध असलहा भी बरामद किये गये है।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम का नाम

1. श्री जितेन्द्र सिंह थानाध्यक्ष थाना बीबीनगर
2. व0उ0नि0 श्री अशोक कुमार, उ0नि0 श्री ऋषिपाल सिंह
3. है0का0 रामकिशन राणा, का0 अंकुर मलिक, का0 अरविन्द सोम, का0 सुखदेव, एचजी देवेन्द्र सिंह